



## ब्लू फ़्लैग समुद्री तटों के लिये तटीय नियमन क्षेत्र नियमों में ढील

 [drishtiias.com/hindi/printpdf/coastal-regulation-zone-rules-relaxed-for-blue-flag-beaches](https://drishtiias.com/hindi/printpdf/coastal-regulation-zone-rules-relaxed-for-blue-flag-beaches)

### प्रीलिम्स के लिये :

CRZ मानदंड, परिस्थितिकी  
पर्यटन

### मेन्स के लिये :

ब्लू फ़्लैग प्रमाणन के बारे में

### चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEFCC) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone-CRZ) संबंधी उन नियमों में कुछ ढील दी है जो समुद्र तटों के पास निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं।

### अन्य बिंदु:

- तटीय विनियमन क्षेत्र में संशोधन से राज्यों को बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायता मिलेगी तथा वे ब्लू फ़्लैग प्रमाणन प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।

- वर्ष 2019 में MoEFCC द्वारा 'ब्लू फ्लैग' प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिये निम्नलिखित 13 समुद्र तटों को प्रस्तावित किया गया था-
  - घोघाला समुद्र तट (दीव) (Ghoghala beach-Diu)
  - शिवराजपुर समुद्र तट (गुजरात) (Shivrajpur beach-Gujarat)
  - भोगवे समुद्र तट (महाराष्ट्र) (Bhogave beach-Maharashtra)
  - पदुबिद्री और कासरकोड समुद्र तट (कर्नाटक) (Padubidri and Kasarkod beaches-Karnataka)
  - कप्पड तट (केरल) (Kappad beach-Kerala)
  - कोवलम समुद्र तट (तमिलनाडु) (Kovalam beach-Tamil Nadu)
  - ईडन समुद्र तट (पुदुचेरी) (Eden beach-Puducherry)
  - रुशिकोंडा समुद्र तट (आंध्र प्रदेश) (Rushikonda beach-Andhra Pradesh)
  - मीरामार समुद्र तट (गोवा) (Miramar beach-Goa)
  - गोल्डन समुद्र तट (ओडिशा) (Golden beach-Odisha)
  - राधानगर समुद्र तट (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) (Radhanagar beach-Andaman & Nicobar Islands)
  - बांगरम समुद्र तट (लक्षद्वीप) (Bangaram beach-Lakshadweep).



## ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण:

- ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिये समुद्र तटों पर कुछ बुनियादी ढाँचे विकसित करने की आवश्यकता होती है जैसे - पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक (Portable Toilet Blocks), ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Grey Water Treatment Plants), सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant), बैठने की सुविधा, सीसीटीवी सर्विलांस (CCTV Surveillance) इत्यादि।
- हालाँकि भारत के CRZ कानून समुद्र तटों और द्वीपों पर इस तरह के बुनियादी ढाँचे के निर्माण की अनुमति नहीं देता।
- नया आदेश हाई टाइड लाइन (High Tide Line-HTL) से 10 मीटर की न्यूनतम दूरी पर कुछ निर्माण कार्य की अनुमति देता है।

## हाई टाइड लाइन:

हाई टाइड लाइन का अर्थ भूमि पर उस रेखा से होता है जिसमें वसंत ज्वार (Spring Tide) के दौरान सबसे अधिक पानी पहुँचता है।

## ब्लू फ्लैग' समुद्र तट:

---

ब्लू फ्लैग' समुद्र तट, एक-इको-टूरिज्म मॉडल है जो समुद्र तटों को स्वच्छ रखकर पर्यटकों के स्नान के लिये स्वच्छ पानी, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण क्षेत्र तथा सतत् विकास के रूप में चिह्नित करता है।

## पारिस्थितिकी पर्यटन:

---

- इसे फ्राँस में वर्ष 1985 में शुरू किया गया और वर्ष 1987 से यूरोप में लागू किया गया।
- यूरोप के बाहर इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया।
- ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- जापान और दक्षिण कोरिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के मात्र दो देश हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं।
- 566 ऐसे समुद्र तटों के साथ स्पेन शीर्ष पर है, ग्रीस और फ्राँस के पास क्रमशः 515 और 395 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं।

स्रोत : द हिंदू

---